

हत्या के प्रयास का एक वांछित अभियुक्त नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा निर्देश में व श्री अरुण कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व श्री श्यामदेव पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन व अमित कुमार दूबे प्रभारी निरीक्षक गगहा के नेतृत्व में उ०नि० मो० गुफरान चौकी प्रभारी गजपुर मय हमराह का० अंकित कुमार व का० शुभम सिंह के चौकी गजपुर थाना हाजा से आज दिनांक 24.09.21 को रवाना होकर बिनावर देखभाल क्षेत्र, पेन्डिंग विवेचना तलाश वांछित अभियुक्त धरपकड़ एवं दबिश अभियुक्त सम्बन्धित मु०अ०सं० 353/2021 धारा 307 भादवि मे मामुर होकर गजपुर कस्बे मे था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त का अभियुक्त रवि सियर तिराहे पर खड़ा है तथा टैम्पू का इन्तजार कर रहा है तथा कही जाने के फिराक में है यदि आप जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है, इस सूचना पर विश्वास कर मै उ०नि० मय हमराहियान के तत्काल मय मुखबिर खास के सियर तिराहे पर पहुचा तो तो देखा कि एक लड़का खड़ा है। मुखबिर ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुये बताया कि यही वह अभियुक्त है जिनको आप तलाश कर रहे है बताकर हट बढ़ गया। हम पुलिस वाले उस ब्यक्ति के तरफ बढ़े तो हड़बड़ा कर भागना चाहा तभी दबिश देकर हिकमत अमली से तिराहे पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम रवि चौधरी पुत्र स्व० उमाशंकर चौधरी निवासी गजपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर उम्र 21 बताया अभियुक्त रवि चौधरी को मु०अ०सं० 353/21 धारा 307 आईपीसी० का वांछित अभियुक्त बताते हुए समय करीब 11.30 बजे बाजाफता बाकायदा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में अलग से मु०अ०सं० 354/2021 धारा 4/25 आर्म्स पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

रवि चौधरी पुत्र स्व० उमाशंकर चौधरी निवासी गजपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर उम्र 21 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

- 1-मु०अ०सं० 353/2021 धारा 307 भादवि थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- 2- मु०अ०सं० 354/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

सियर तिराहे के पास दिनांक 24.9.21 समय 11.30 बजे सुबह

गिरफ्तारी करने वाले अधि०/कर्मचारीगण-

- (1) उ०नि० श्री मो० गुफरान चौकी प्रभारी गजपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (2) का० शुभम सिंह थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (3) का० अंकित कुमार थाना गगहा जनपद गोरखपुर